



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020

पौष 2, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2

संख्या 876/नौ-2-2020-02(सीमा विस्तार)-2011
लखनऊ, 23 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-552

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उपधारा-(1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को, नगर पालिका परिषद, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या 1074/नौ-02-2019-02(सीमा विस्तार)-2011, दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 850/नौ-02-2020-02 (सीमा विस्तार)-2011, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ नगर पालिका परिषद खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं और भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (घ) के अधीन निदेश देती हैं, कि अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, नगर पालिका परिषद खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के प्रादेशिक क्षेत्र होंगे।

अनुसूची-1

नगर पालिका परिषद खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र

क्र०सं०	ग्राम का नाम/क्षेत्रफल हेक्टेयर में	ग्राम का नाम/क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल गाटा सं०	विवरण
1	खुर्जा देहात	खुर्जा देहात (बाहर चुंगी)	खुर्जा देहात गाटा संख्या 659 से 666 तक 682 से 689 तक 691 से 699 तक 701 से 706 तक, 712, 717 से 731 तक, 733 से 737 तक, 739 से 789 तक, 791 से 808 तक, 810, 812 से 814 तक, 815 से 821 तक, 821 से 840 तक 844 से 854 तक 857 से 863 तक 864 से 875 तक, 877, 878, 880 से 886 तक, 887, 888, 889, 891 से 893 तक, 898, 899, 908 से 911 तक, 914 से 997 तक, 732/2051, 738/1998, 773/2061,	ग्राम खुर्जा देहात (बाहर चुंगी)
2	खुर्जा देहात	खुर्जा देहात (बाहर चुंगी)	ग्राम वाजीदपुर का गाटा संख्या 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 194, 195, 196, 197, 199, 200, ग्राम उस्मापुर का गाटा संख्या 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 449, 453, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 470, 471, 473, 474, 477, 480, 482, 483, 484, 486, 488, 491, 496, 499, 501, 505, 507, 508, 518, 523, 593, खुर्जा देहात का गाटा संख्या 1000 से 1066 तक, 1068 से 1077 तक, 1093 से 1186 तक, 1187, 1188 से 1190 तक, 1449, 1450, 1610 से 1640 तक, 1816 से 1825 तक, 1901 से 1909 तक, 1911 से 1916 तक, 1018/2020, 1044/2050, 1187/2009	ग्राम देहात (बाहर चुंगी)
3	खुर्जा देहात	खुर्जा देहात (बाहर चुंगी)	गाटा संख्या 1196 से 1290 तक, 1306 से 1372 तक, 1400 से 1552 तक, 1557 से 1655 तक, 919/2004,	ग्राम खुर्जा देहात (बाहर चुंगी)
4	खुर्जा देहात	खुर्जा देहात (बाहर चुंगी)	खुर्जा देहात गाटा संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52 से 56 तक, 57 से 76 तक, 78 से 83 तक, 91, 92, 101 से 120 तक, 122, 135 से 142 तक, 186, से 192 तक, 194 से 196 तक, 198, 201 से 235 तक, 239 से 289 तक, 291 से 336, 490, 498, 499, 502 से 509 तक, 518, 519, 553, 557 से 583 तक, 585, 624 से 660 तक, 135/1978, 136/1980, 188/1981, 190/1982, 509/1991, 518/2048।	ग्राम खुर्जा देहात (बाहर चुंगी) पश्चिम से उत्तर

खुर्जा देहात वाजिदपुर, उस्मापुर (बाहर चुंगी) के कुल गाटा एवं क्षेत्रफल:-

गाटा संख्या-1597

क्षेत्रफल-537.209 हे०

अनुसूची-2

अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के पश्चात नगर पालिका परिषद खुर्जा, जिला बुलन्दशहर का प्रादेशिक क्षेत्र-

ग्राम पंचायत-खुर्जा (पूर्व दिशा)

गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल-

खुर्जा देहात अन्दर चुंगी-171 से 180 तक, 261 से 265 तक, 290, 299, 301 से 317 तक, 335 से 347 तक, 350 से 356 तक, 358 से 372 तक, 375, 387, 388, 397, 399, 402 से 406 तक, 408 से 430, 432, 443 तक, 434 से 442 तक, 753 से 756 तक, 760, 761, 762 से 770, 772 से 777 तक, 778, 800, 810, 815, 822 से 862 तक, 902, 903, 1166, 1168 से 1184 तक, 1551 से 1745 तक, 1747, 1748, 1755 से 1772 तक, 1774 से 1789 तक, 2650 से 2655 तक, 2657 से 2671 तक 2672 से 2674 तक, 2676 से 2725 तक, 2742 से 2744 तक, 2746 से 2752 तक, 2754 से 2757 तक, 2759 से 2773 तक, 2776 से 2796 तक, 2798 से 2846 तक, 2848, 2850 से 2852 तक, 180/1, 108/2 तक

खुर्जा देहात बाहर चुंगी-गाटा संख्या 659 से 666 तक 682 से 689 तक 691 से 699 तक 701 से 706 तक, 712, 717 से 731 तक, 733 से 737 तक, 739 से 789 तक, 791 से 808 तक, 810, 812 से 814 तक, 815 से 821 तक, 822 से 840 तक 844 से 854 तक 857 से 863 तक 864 से 875 तक, 877, 878, 880 से 886 तक, 887, 888, 889, 891 से 893 तक, 898, 899, 908 से 911 तक, 914 से 997 तक, 732/2051, 738/1998, 773/2061

ग्राम पंचायत-खुर्जा (दक्षिण दिशा)

गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल-

खुर्जा अन्दर चुंगी-1309 से 1327 तक, 1331, 1344, 1345, 1388, 1390 से 1396 तक, 1398, 1399, 1535 से 1550 तक, 1792, 1793, 1795 से 1815 तक, 1818, 1819, 1820 1845 से 1883 तक, 1886 से 1890 तक, 1949 से 1992 तक, 2083, 2084, 2088 से 2106 तक

खुर्जा देहात बाहर चुंगी-ग्राम वाजीदपुर का गाटा संख्या 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 194, 195, 196, 197, 199, 200, ग्राम उस्मापुर का गाटा संख्या 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 449, 453, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 470, 471, 473, 474, 477, 480, 482, 483, 484, 486, 488, 491, 496, 499, 501, 505, 507, 508, 518, 523, 593, खुर्जा देहात का गाटा संख्या 1000 से 1066 तक, 1068 से 1077 तक, 1093 से 1186 तक, 1187, 1188 से 1190 तक, 1449, 1450, 1610 से 1640 तक, 1816 से 1825 तक, 1901 से 1909 तक, 1911 से 1916 तक, 1018/2020, 1044/2050, 1187/2009

ग्राम पंचायत-खुर्जा (पश्चिम दिशा)

गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल-

खुर्जा अन्दर चुंगी-1790, 2396 से 2466 तक, 2468 से 2557 तक

खुर्जा देहात बाहर चुंगी-1196 से 1290 तक, 1306 से 1372 तक, 1400 से 1552 तक, 1557 से 1655 तक, 919/2004

ग्राम पंचायत-खुर्जा (उत्तर दिशा)

गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल-

खुर्जा अन्दर चुंगी-2558 से 2631 से 2635 तक, 2637 से 2649 तक, 2854 से 2858 तक, 2860 से 2866 तक, 2870 से 2881 तक, 2887, 2980 से 2983 तक, 2985, 2992 से 3052, 3054 तक, 3062 से 3066, 3070, 3071 तक, 3435, 3455, 3457, 3485 से 3527 तक, 3529 से 3534 तक, 3614 से 3631 तक

खुर्जा देहात बाहर चुंगी-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52 से 56 तक, 57 से 76 तक, 78 से 83 तक, 91, 92, 101 से 120 तक, 122, 135 से 142 तक, 186, से 192 तक, 194 से 196 तक, 198, 201 से 235 तक, 239 से 289 तक, 291 से 336, 490, 498, 499, 502 से 509 तक, 518, 519, 553, 557 से 583 तक, 585, 624 से 660 तक, 135/1978, 136/1980, 188/1981, 190/1982, 509/1991, 518/2048

नगर पालिका परिषद खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की सीमा विस्तार के पश्चात बाह्य सीमाएं

पूर्व—10, 21, 24, 25, 26, 77, 84, 86, 99, ग्राम चांदपुर 10, 17, 19, 21 खुर्जा देहात 129, 124, 134, 148, 117, 174, 175, 176, 181, 182 ग्राम चांदपुर की बाउण्ड्री के साथ साथ ग्राम चांदपुर के गाटा संख्या 78, 71, 367, 369, 370, 375, 377, 382 खुर्जा देहात 341, 339, 337, 347, 351, 352, 517, 515, 514, 584, 511, 495, 472, 469, 456, 454, 453, 442, 441, 440, 439 ग्राम बगराई की सीमा होते हुए खुर्जा देहात के गाटा संख्या 672, 671, 670, 612, 616, 714, 708, 706, 760, 781 ग्राम झमका की सीमा होते हुए ग्राम झमका के गाटा संख्या 47, 48, 52, 53, 56, 59, 64, 80, 81, 82, 83 खुर्जा देहात 902, 901, 900, 904, 906, 907 ग्राम वाजीदपुर की सीमा होते हुए ग्राम वाजीदपुर की गाटा संख्या 7, 8, 9, 21, 38, 39, 40, 89, 100, 190 तक।

पश्चिम—46, 45, 44, 43, 42, 41 ग्राम निजामपुर की सीमा के साथ-साथ रेलवे लाईन ग्राम ढाकर के गाटा संख्या 630, 596, 595, 590, 586, 585, 582, 578, 577, 576, 160, 159, 58, 51, 50, 49, 32, 22, 21, 20, 19 ग्राम खुर्जा देहात के गाटा संख्या 1556, 1553, 1546, 1544 सिकन्द्राबाद रोड़ तक।

उत्तर—1539, 1522, 1520, 1519, 1597, 1398, 1399, 1393, 1392, 1373, 1374, 1380, 1379, 1355 ग्राम जाफराबाद की सीमा के साथ-साथ ग्राम जाफराबाद के गाटा संख्या 453, 454, 456, 457, 468, 471, 472, 511, 512, 513, 514 खुर्जा देहात के गाटा संख्या 1305, 1291, 1292, 1293 जी0टी0 रोड़ तक।

दक्षिण— जी0टी0 रोड़ से 201 ग्राम उस्मापुर की सीमा से उस्मापुर के गाटा संख्या 429, 430, 446, 445, 452, 464, 466, 469, 494, 495, 594, 592, 511, 498, 509, 515, 527, 528 खुर्जा देहात 1975, 1973, 1971, 1976, 1934, 1933, 1927, 1925, 1926, 1918, 1917, 1979, 1899, 1946, 1958, 1959 ग्राम टैना गौसपुर की सीमा के साथ-साथ ग्राम टैना के गाटा संख्या 47, 596, 595, 594, 592, 989, 171, 170, 149, 148, 147 जेवर रोड़ तक।

उपरोक्त ग्रामों की कुल गाटा संख्या—2825

उपरोक्त ग्रामों का कुल क्षेत्रफल—945.1896

इस प्रकार उपरोक्त ग्रामों के सभी गाटा संख्याओं से सीमा प्रारम्भ होती है जिनके अधीन आच्छादित कुल क्षेत्रफल 945.1896 हेक्टेयर है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 876/IX-2-2020-02(Seema Vistar)-2011, dated December 23, 2020 :

No. 876/IX-2-2020- 02(Seema Vistar)-2011

Dated Lucknow, December 23, 2020

WHEREAS notification no.1074/IX-2-2019-02(Seema Vistar)-2011 dated November 13, 2020 was published to invite objections and suggestions for including the areas specified in Schedule-I below in the smaller urban area of Municipal Council Khurja, District Bulandshahr as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), hereinafter referred to as the said Act;

AND, WHEREAS, the objections and suggestion received in pursuance of the said notification has been disposed of by Government order no. 850/IX-2-2020-02(Seema Vistar)-2011, dated December 18,2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the said Act, the Governor is pleased to include the area specified in Schedule-I below in the smaller urban area of Municipal Council Khurja, District Bulandshahr for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India and to direct under clause (d) of Article 243-P of the Constitution of India that the areas specified in Schedule- 2 shall be the territorial area of Municipal Council Khurja, District Bulandshahr.

SCHEDULE-1

Area being included in Municipal Council Khurja, district Bulandshahr

Sl. No.	Village Name / Area (In Hectare)	Village Name/ Area (In Hectare)	Total Gata No.	Description
1	Khurja Dehat	Khurja Dehat (Bahar Chungi)	Khurja Dehat Gata no. 659 to 666, 682 to 689, 691 to 699, 701 to 706 , 712, 717 to 731, 733 to 737, 739 to 789, 791 to 808, 810, 812 to 814, 815 to 821, 821 to 840, 844 to 854, 857 to 863, 864 to 875, 877, 878, 880 to 886, 887, 888, 889, 891 to 893, 898, 899, 908 to 911, 914 to 997, 732/2051, 738/1998, 773/2061	Village Khurja Dehat (Bahar Chungi) North to East
2	Khurja Dehat	Khurja Dehat (Bahar Chungi)	Village Wajidpur Gata no. 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 194, 195, 196, 197, 199, 200 Village Usmapur Gata no. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 449, 453, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 470, 471, 473, 474, 477, 480, 482, 483, 484, 486, 488, 491, 496, 499, 501, 505, 507, 508, 518, 523, 593 Khurja Dehat Gata no. 1000 to 1066 , 1068 to 1077, 1093 to 1186, 1187, 1188 to 1190, 1449, 1450, 1610 to 1640, 1816 to 1825, 1901 to 1909, 1911 to 1916, 1018/2020, 1044/2050, 1187/2009	Village Khurja Dehat (Bahar Chungi) East to South
3	Khurja Dehat	Khurja Dehat (Bahar Chungi)	Khurja Dehat Gata no. 1196 to 1290, 1306 to 1372, 1400 to 1552, 1557 to 1655, 919/200	Village Khurja Dehat (Bahar Chungi) South to West
4	Khurja Dehat	Khurja Dehat (Bahar Chungi)	Khurja Dehat Gata no. 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52 to 56, 57 to 76 , 78 to 83, 91, 92, 101 to 120, 122, 135 to 142, 186 to 192, 194 to 196, 198, 201 to 235, 239 to 289, 291 to 336, 490, 498, 499, 502 to 509 , 518, 519, 553, 557 to 583, 585, 624 to 660, 135/1978, 136/1980, 188/1981, 190/1982, 509/1991, 518/2048	Village Khurja Dehat (Bahar Chungi) West to North

Total Gata No.-1597

Total Area-537.209 Hect.

SCHEDULE-2

The Territorial Area of Municipal Council Khurja, district Bulandshahr after inclusion of the specified area in Schedule-1**Gram Panchayat- Khurja (East Direction)****Gata and Area-**

Khurja Dehat Andar Chungi Gata no.-171 to 180, 261 to 265, 290, 299, 301 to 317, 335 to 347, 350 to 356, 358 to 372, 375, 387, 388, 397, 399, 402 to 406, 408 to 430, 432, 443, 434 to 442, 753 to 756, 760, 761, 762 to 770, 772 to 777, 778, 800, 810, 815, 822 to 862, 902, 903, 1166, 1168 to 1184, 1551 to 1745, 1747, 1748, 1755 to 1772, 1774 to 1789, 2650 to 2655, 2657 to 2671, 2672 to 2674, 2676 to 2725, 2742 to 2744, 2746 to 2752, 2754 to 2757, 2759 to 2773, 2776 to 2796, 2798 to 2846, 2848, 2850 to 2852, 180/1, 108/2

Khurja Dehat Bahar Chungi Gata no.-659 to 666, 682 to 689, 691 to 699, 701 to 706, 712, 717 to 731, 733 to 737, 739 to 789, 791 to 808, 810, 812 to 814, 815 to 821, 822 to 840, 844 to 854, 857 to 863, 864 to 875, 877, 878, 880 to 886, 887, 888, 889, 891 to 893, 898, 899, 908 to 911, 914 to 997, 732/2051, 738/1998, 773/2061

Gram Panchayat- Khurja (South Direction)**Gata and Area-**

Khurja Andar Chungi-1309 to 1327, 1331, 1344, 1345, 1388, 1390 to 1396, 1398, 1399, 1535 to 1550, 1792, 1793, 1795 to 1815, 1818, 1819, 1820 1845 to 1883, 1886 to 1890, 1949 to 1992, 2083, 2084, 2088 to 2106

Khurja Dehat Bahar Chungi-Village Wajidpur Gata no.-25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 194, 195, 196, 197, 199, 200 Village Usmapur Gata no.- 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 449, 453, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 470, 471, 473, 474, 477, 480, 482, 483, 484, 486, 488, 491, 496, 499, 501, 505, 507, 508, 518, 523, 593 Khurja Dehat Gata no. 1000 to 1066, 1068 to 1077, 1093 to 1186, 1187, 1188 to 1190, 1449, 1450, 1610 to 1640, 1816 to 1825, 1901 to 1909, 1911 to 1916, 1018/2020, 1044/2050, 1187/2009

Gram Panchayat- Khurja (West Direction)**Gata and Area-**

Khurja Andar Chungi-1790, 2396 to 2466, 2468 to 2557

Khurja Dehat Bahar Chungi-Khurja Dehat Gata no.-1196 to 1290, 1306 to 1372, 1400 to 1552, 1557 to 1655, 919/200

Gram Panchayat- Khurja (North Direction)**Gata and Area-**

Khurja Andar Chungi-2558 to 2631 to 2635, 2637 to 2649, 2854 to 2858, 2860 to 2866, 2870 to 2881, 2887, 2980 to 2983, 2985, 2992 to 3052, 3054, 3062 to 3066, 3070, 3071, 3435, 3455, 3457, 3485 to 3527, 3529 to 3534, 3614 to 3631

Khurja Dehat Bahar Chungi-Gata no.-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52 to 56, 57 to 76, 78 to 83, 91, 92, 101 to 120, 122, 135 to 142, 186, to 192, 194 to 196, 198, 201 to 235, 239 to 289, 291 to 336, 490, 498, 499, 502 to 509, 518, 519, 553, 557 to 583, 585, 624 to 660, 135/1978, 136/1980, 188/1981, 190/1982, 509/1991, 518/2048

The Outer Boundaries of Municipal Council Khurja, district Bulandshahr Dehat after Extension

East-10, 21, 24, 25, 26, 77, 84, 86, 99 Village Chandpur 10, 17, 19, 21 Khurja Dehat 129, 124, 134, 148, 117, 174, 175, 176, 181, 182 Village Chandpur Boundary as well as Village Chandpur 78, 71, 367, 369, 370, 375, 377, 382 Khurja Nagar 341, 339, 337, 347, 351, 352, 517, 515, 514, 584, 511, 495, 472, 469, 456, 454, 453, 442, 441, 440, 439 Bagrai border with Khurja Dehat Gata no. 672, 671, 670, 612, 616,

714, 708, 706, 760, 781 Village Jhamka with border of Village Jhamka Gata no. 47, 48, 52, 53, 56, 59, 64, 80, 81, 82, 83 Khurja Nagar 902, 901, 900, 904, 906, 907 Village Wajidpur with border Wajidpur Gata no. 7, 8, 9, 21, 38, 39, 40, 89, 100, 190

West- 46, 45, 44, 43, 42, 41 Village Nizampur Boundary with Railway Line Village Dhakar Gata no. 630, 596, 595, 590, 586, 585, 582, 578, 577, 576, 160, 159, 58, 51, 50, 49, 32, 22, 21, 20, 19 Village Khurja Dehat Gata no. 1556, 1553, 1546, 1544 Sikandrabad Road

North- 1539, 1522, 1520, 1519, 1597, 1398, 1399, 1393, 1392, 1373, 1374, 1380, 1379, 1355 Village Jafrabad Boundary with Village Jafrabad Gata no. 453, 454, 456, 457, 468, 471, 472, 511, 512, 513, 514 Khurja Dehat Gata no. 1305, 1291, 1292, 1293 G. T. Road

South- G. T. Road to 201 Village Usmapur Boundary with Village Usmapur Gata no. 429, 430, 446, 445, 452, 464, 466, 469, 494, 495, 594, 592, 511, 498, 509, 515, 527, 528 Khurja Dehat 1975, 1973, 1971, 1976, 1934, 1933, 1927, 1925, 1926, 1918, 1917, 1979, 1899, 1946, 1958, 1959 Village Taina Gouspur Boundary with Village Taina Gata no. 47, 596, 595, 594, 592, 989, 171, 170, 149, 148, 147 Jewer Road.

Total Gata Number of above Villages- 2825

Total Area of Above Villages- 945.1896

Thus the limit starts form the all Gata Number of above Villages under which area is covered by the total area 945.1896 Hectare.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.